

#### FRICK INDIA LIMITED

(AN ISO 9001 : 2015 COMPANY)

21.5 Km., Main Mathura Road, Faridabad - 121003 (Haryana) CIN- L74899HR1962PLC002618 Phone 91-129-2275691-94, 2270546/7

Fax : 91-129-2275695 Email : fbd@frick.co.in

Website: www.frickweb.com GST NO: 06AACF0410C1ZN PAN NO: AAACF0410C

To,

Head-Listing & Compliance The Metropolitan Stock Exchange of India Limited, 4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62, Bandra Kurla Complex, Dated: February 13, 2023

Scrip Code: 000000

MSEI Symbol: FRICKINDIA

Dear Sir/Madam,

<u>Sub:</u> Intimation under Regulation 32 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Regulations), 2015 and Out Come of the meeting for the Third Quarter and Nine Months ended on 31-12-2022.

Dear Sir/Madam,

In reference to the above captioned regulation, we hereby confirm that the company has not come with any public issue, rights issue, preferential issue, QIP during the Third Quarter and Nine Months ended on 31-12-2022 so Regulation 32 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Regulations), 2015 is not applicable on the company during Third Quarter and Nine Months ended on 31-12-2022.

Further the Out Come of the Meeting is available for your consideration and necessary action.

Should you require any further information on the subject, please do let us know.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For FRICK INDIA LIMITED

**AMIT SINGH** 

Company Secretary

Membership No A46813

February 13, 2023

New Delhi



12, Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110 001, India Telephone: 91 11 23710176 / 23710177 / 23364671 / 2414

Fax : 91 11 23345168 / 23314309

E-mail : delhi@lodhaco.com

Independent Auditor's Review Report on the Quarterly and Year to Date Unaudited Financial Results of the Company Pursuant to the Regulation 33of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

**Review Report to** 

The Board of Directors of

Frick India Limited

1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited financial results of Frick India Limited (the "Company") for the quarter ended December 31, 2022 and year to date from April 1, 2022 to December 31, 2022 (the "Statement") attached herewith, being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations").

2. This Statement, which is the responsibility of the Company's Management and approved by the Company's Board of Directors, has been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, (Ind AS 34) "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.

3. We conducted our review of the Statement in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing specified under section 143 (10) of the

Companies Act, 2013 and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

4. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in all material respects in accordance with the applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 as amended, read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting principles and policies generally accepted in India, has not disclosed the information required to be disclosed in terms of the Listing Regulations, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

For LODHA & CO.

**Chartered Accountants** 

Firm Registration No: 301051E

(Gaurav Lodha)

Partner

Membership No. 507462

UDIN:23507462BGVDDR3178

Place: Delhi

Date: February 13, 2023

#### FRICK INDIA LIMITED

#### Registered Office: 21.5 KM, Main Mathura Road, Faridabad, 121003

CIN-L74899HR1962PLC002618

Tel: 01292275691-94

Email: fbd@frickmail.com

Website: www.frickweb.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31.12.2022

Т	Particulars	Q	arter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended
		31/12/2022	30/09/2022	31/12/2021		31/12/2021	31/03/2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unau	idited)	(Audited)
	Revenue						
1	Revenue from Operations	10,009.17	6,742.86	6,611.81	23,456.70	18,309.55	28,046.69
11	Other Income	165.86	152.73	130.70	459.14	591.71	725.11
111	Total Income (I+II)	10,175.03	6,895.59	6,742.51	23,915.84	18,901.26	28,771.80
IV	Expenses						
	Cost of Materials Consumed	6,790.76	5,331.97	4,477.61	17,250.22	14,350.42	20,444.34
	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade	358.53	(914.44)	(256.30)	(1,227.00)	(1,778.43)	(1,355.05
T	Employees Benefit Expenses	1,285.99	1,191.90	1,160.68	3,593.48	3,139.05	4,338.83
$\neg$	Finance Cost	38.74	40.75	26.28	108.07	108.08	196.31
$\neg$	Depreciation & Amortisation Expense	56.23	55.11	58.88	158.75	159.61	217.11
7	Other expenses	712.22	579.48	579.64	2.010.43	1,778.23	2,740.55
+	Total Expenses (IV)		6,284,77	6.046.79	21,893.95	17,756.96	26,582.09
+	Total Expelises (IV)	9,242.47	6,284.77	6,046.79	21,053.55	17,750.50	20,002.00
V	Profit before tax (III-IV)	932.56	610.82	695.72	2,021.89	1,144.30	2,189.71
VI	Tax Expenses						
T	a) Current tax	234.70	153.72	175.09	508.85	287.99	578.00
T	b) Deferred tax	(36.98)	16.86	(10.16)	(40.42)	(19.21)	(24.63
1	c) Income tax for earlier years	-		-			
1	Total taxes (VI)	197.72	170.58	164.93	468.43	268.78	553.37
/11	Profit after tax for the period (V-VI)	734.84	440.24	530.79	1,553.46	875.52	1,636.34
111	Other Comprehensive Income (net of taxes)						
	(A) (i) Items that will not be Reclassified to Profit or Loss:	(3.73)	(3.72)	(5.31)	(11.17)	(15.92)	(14.89
	Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss:	0.94	0.93	1.34	2.81	4.01	3.75
+	(B) (i) Items that will be Reclassified to Profit or Loss:	-		-		-	-
	Income tax relating to items that will not be reclassified to Profit or Loss:	•		(#:			0.00
+	Total Other Comprehensive Income (VIII)	(2.79)	(2.79)	(3.97)	(8.36)	(11.91)	(11.14
X	Total Comprehensive Income for the period (VII+VIII)	732.05	437.45	526.82	1,545.10	863.61	1,625.20
	Other Equity						20,303.98
3	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	Earnings Per Share (EPS) (Rs./ Share)						
	a) Basic EPS - Not annualised	122.48	73.38	88.47	258.93	145.91	272.73
$\top$	b) Diluted EPS - Not annualised	122.48	73.38	88.47	258.93	145.91	272.73

- The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at its respective meeting held on
- The Company is primarily engaged in the business of manufacture, supply and execution of Industrial Refrigeration and Air conditioning systems. As the basic nature of these activities is governed by the same set of risks and returns, therefore, has only one reportable segment in according to IND AS 108 "Operating Segments".
- Karvy Stock Broking Limited (KSBL) was holding equity shares on behalf of the company in demat account worth Rs. 186.82 lakhs (market value as on 31-03-2022) along with bank balance of Rs. 24.76 lakhs deposited by the company, which had been pledged by the KSBL without the knowledge and approval of the company. As per the Circular issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) dated June 20, 2019, brokers cannot pledge client's securities to raise loans / funds for themselves / itself use and brokers are required to segregate client's funds with it's own fund as well as securities.

Accordingly, the company has written emails and letters in the year 2021 and 2022 to NSE (being Nodal Agency) for return of the securities and deposit amount held in the name of the company from KSBL. Further, during the quarter the company has also issued legal notice through its lawyer to KSBL and NSE.

Pending receipt of original shares/ claimed equal number of shares along with bank balance or amount of Rs.181.10 lakhs (net of amount received of Rs. 30.49 lakhs), accordingly the company has adjusted the amount from investment and the same is shown under other financial assets (current). Further in the opinion of the company above stated amount is good and fully recoverable.

The figures for the previous periods/year have been regrouped / rearranged, wherever necessary.

For and on behalf of Board

Jasmohan Singh Managing Director Date: 13.02.2022 Place: Delhi



**FINANCIAL EXPRESS** 

## UNIMODE OVERSEAS LIMITED

CIN: L51909DL1992PLC048444

Regd. Office: 304A/10178, Illrd Floor, Ravinder plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31 December, 2022

Quarter Quarter Nine Year Ended Ended months Ended Particulars 31-Dec-22 31-Dec-21 31-Dec-22 31-Mar-22 Un-Audited Un-Audited Un-Audited Audited 0.04 0.49 Total income from operations (net) Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional -0.24-0.13-1.09-0.44and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional -0.24-0.13-1.09 -0.44and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional -0.24-0.13-1.09-0.44and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period (Comprising) Profit/ (loss) for the period (after tax) and other -0.24-0.13-1.09 -0.44Comprehensive income (after tax)) Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- each) 5.01 5.01 5.01 5.01 -8.76-8.76 -7.68Other Equity Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation) Basic: -0.47-0.27-2.18-0.88-0.47-0.27Diluted: -2.18 -0.88

#### Notes:

Place: New Delhi

Date: 13.02.2023

The above results after being reviewed by the Audit Committee have been taken on record by the Board at its Meeting held on 13th February 2023.

The previous periods figures has been regrouped and reclassified where ever necessary.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and Companies Website i.e. www.unimodeoverseas.in By order of the Board

For Unimode Overseas Limited

(Rs. In Million)

Ashish Goel Director DIN: 00367103

# SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

EXTRACT FROM STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2022 (₹ in Lacs)

PARTICULARS	Quarter ended	Preceding 3 months ended	Corres- ponding 3 months ended in the Previous Year	figures for current Period ended	Year to date figures for previous Period ended	Previous Year ended	
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Total income from operations (net)	6.82	6.87	7.24	20.87	22.05	30.32	
Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and or Extraordinary Items)	-0.20	0.02	0.90	0.23	3.69	5.63	
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	-0.20	0.02	0.90	0.23	3.69	5.63	
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	-0.15	0.19	0.68	0.17	2.83	4.83	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-0.15	0.19	0.68	0.17	2.83	4.83	
Equity Share Capital	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	75.48	
Earnings per share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.10	0.17	
Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.10	0.17	
Notes:							

1. The above results were reviewed and recommended by the audit committee and then approved by the board of directors at their meeting held on February 13, 2023.

2. The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other recognized accounting practices and the policies to the extent applicable.

3. The Company has not received any complaint from investors during the guarter ended on 31.12.2022 4. The Business activity of the Company falls with in a single primary business segment and there are no reportable segments.

5. That the company is planning to go in Core Investment companies, however the process of the same is still under process. 6. Figures for the corresponding period have been regrouped/recasted/rearranged wherever necessary to make them comparable.

7. The unaudited results of the Company for the guarter ended December 31, 2022 are available on the Company's website

(www.sfclindia.com) and on the website of MSEI (www.msei.in).

For and on behalf of the Board Vinod Gupta (Whole Time Director)

DIN: 00381782

Date: 13.02.2023

Place: Delhi

### FRICK INDIA LIMITED CIN: L74899HR1962PLC002618

Registered Office: 21.5 KM, Main Mathura Road, Faridabad, 121003 Tel: 01292275691-94, Email: fbd@frickmail.com, Website: www.frickweb.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31.12.2022

	(Rs. in Lakhs )							
S.	Doutloulous	Quarter Ended Nine Month Ended					Year Ended	
No.	Particulars		30/09/2022 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2022 (Unaudited)		31/03/2022 (Audited)	
	Revenue							
I	Revenue from Operations	10,009.17	6,742.86	6,611.81	23,456.70		28,046.69	
II	Other Income	165.86	152.73	130.70	459.14	591.71	725.11	
Ш	Total Income (I+II)	10,175.03	6,895.59	6,742.51	23,915.84	18,901.26	28,771.80	
IV	Expenses							
	Cost of Materials Consumed	6,790.76	5,331.97	4,477.61	17,250.22	14,350.42	20,444.34	
	Changes in inventories of finished goods,							
	work-in-progress and Stock-in-Trade	358.53	(914.44)	(256.30)	(1,227.00)	(1,778.43)	, , ,	
	Employees Benefit Expenses	1,285.99	1,191.90	1,160.68	3,593.48	3,139.05	4,338.83	
	Finance Cost	38.74	40.75	26.28	108.07	108.08	196.31	
	Depreciation & Amortisation Expense	56.23	55.11	58.88	158.75	159.61	217.11	
	Other expenses	712.22	579.48	579.64	2,010.43	1,778.23		
	Total Expenses (IV)	9,242.47	6,284.77	6,046.79	21,893.95	17,756.96		
V	Profit before tax (III-IV)	932.56	610.82	695.72	2,021.89	1,144.30	2,189.71	
VI	Tax Expenses							
	a) Current tax	234.70	153.72	175.09	508.85	287.99	578.00	
	b) Deferred tax	(36.98)	16.86	(10.16)	(40.42)	(19.21)	(24.63)	
	c) Income tax for earlier years	-	-	-	-	-	-	
	Total taxes (VI)	197.72	170.58	164.93	468.43	268.78	553.37	
VII	Profit after tax for the period (V-VI)	734.84	440.24	530.79	1,553.46	875.52	1,636.34	
VIII	Other Comprehensive Income (net of taxes)							
	(A)(i) Items that will not be Reclassified to							
	Profit or Loss:	(3.73)	(3.72)	(5.31)	(11.17)	(15.92)	(14.89)	
	(ii) Income tax relating to items that will not be							
	reclassified to Profit or Loss:"	0.94	0.93	1.34	2.81	4.01	3.75	
	(B)(i) Items that will be Reclassified to							
	Profit or Loss:	-	-	-	-	-	-	
	(ii) Income tax relating to items that will not							
	be reclassified to Profit or Loss:"	-	-	-	-	-	-	
	Total Other Comprehensive Income (VIII)	(2.79)	(2.79)	(3.97)	(8.36)	(11.91)	(11.14)	
IX	Total Comprehensive Income for the							
	period (VII+VIII)	732.05	437.45	526.82	1,545.10	863.61	1,625.20	
Χ	Other Equity						20,303.98	

Notes: The above results were reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at its respective meeting held on 13.02.2023 and a limited review of the same have been carried out by the statutory auditors of the company.

60.00

122.48

122.48

The Company is primarily engaged in the business of manufacture, supply and execution of Industrial Refrigeration and Air conditioning systems. As the basic nature of these activities is governed by the same set of risks and returns, therefore, has only

60.00

73.38

73.38

60.00

88.47

88.47

60.00

258.93

258.93

60.00

145.91

145.91

60.00

272.73

272.73

Note:

whichever is applicable.

Dated: 13.02.2023

Place: Noida

one reportable segment in according to IND AS 108 "Operating Segments".

Paid-up Equity Share Capital

(Face value of Rs. 10/- each)

a) Basic EPS - Not annualised

b) Diluted EPS - Not annualised

Date: 13.02.2023

financialem epam.in

Place: Delhi

Earnings Per Share (EPS) (Rs./ Share)

Karvy Stock Broking Limited (KSBL) was holding equity shares on behalf of the company in demat account worth Rs. 186.82 lakhs (market value as on 31-03-2022) along with bank balance of Rs. 24.76 lakhs deposited by the company, which had been pledged by the KSBL without the knowledge and approval of the company. As per the Circular issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) dated June 20, 2019, brokers cannot pledge client's securities to raise loans / funds for themselves / itself use and brokers are required to segregate client's funds with it's own fund as well as securities. "Accordingly, the company has written emails and letters in the year 2021 and 2022 to NSE (being Nodal Agency) for return of the securities and deposit amount held in the name of the company from KSBL. Further, during the quarter the company has also issued legal notice through its lawyer to KSBL and NSE. "Pending receipt of original shares/ claimed equal number of shares along with bank balance or amount of Rs.181.10 lakhs (net of amount received of Rs. 30.49 lakhs), accordingly the company has adjusted the amount from investment and the same is shown under other financial assets (current). Further in the opinion of the company above stated amount is good and fully recoverable The figures for the previous periods/year have been regrouped / rearranged, wherever necessary

> Frick India Limited Sd/-Jasmohan Singh **Managing Director** DIN - 00383412

For and on behalf of Board

NEW HABITAT HOUSING FINANCE & DEVELOPMENT LIMITED
Office: New Habitat Housing Finance & Development Limited,
Unit No. 761, 7th Floor Vegas Mall, Plot No. 06, Sector-14,
Dwarka, New Delhi-110075, E-mail: info@newhabitat.in,
Web: www.newhabitat.in, Mob: +91-9999694526

POSSESSION NOTICE Whereas the undersigned being the Authorized Officer of New Habitat Housing Finance & Development Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafte

Thirty One Lacs Sixty

Nine Thousand Tw

Hundred and Sixty Eigh

only) as on 30,11,202

together with further

interest and incidenta

expenses and costs

there on in Loan Accour

No. HSG/N/HEA

eferred to as "the Act") and in exercise of power conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of The Security Interes (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand Notice on below mentioned date, calling upon the below mentioned borrowers to epay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said Notices. The borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section (3(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said rules on below mentioned date.

The borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and dealings with the properties will be subject to the charge of New Habitat Housing Finance & Development Limited for an amount

The borrower attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of "The Act", in respect of time available, to redeer he secured assets Sr. Name of the Borrower/ Description of Property Demand Notice Outstanding

	Co-borrower/Guarantor	Description of Froperty	Possession Notice	Amount	
		Back side portion of First Floor without Roof Rights out of Built up Property No.3, out of	09.12.2022	Rs.11,35,017/- (Rupees Eleven Lacs Thirteen	
	RAJINDER SACHDEVA S/O SHRI.	Rights out of Built up Property No.3, out of Musttil No.7, Killa No.15, area measuring 4 Sq.Yds. (33.44 Sq.Mtrs.) situated in the revenue state of village Matiala, Delhi Stat Delhi, Colony known as Khushi Ram Par Uttam Nagar, New Delhi-110059 wit common rights of common entrance passage, staircase, alongwith one Bik	13.02.2023	Five Thousand and Seventeen only) as on 30.11.2022 together with further interest and incidental expenses and costs there on in Loan Account No. HSG/N/ HEA/NSP/0817/0019	
2.		Built-Up First Floor without roof/terrace rights	09.12.2022	Rs.31,69,268/- (Rupees	

PRADEEP KUMAR, R/o 8-40-A, First Floor, in area measuring 85 Sq.Yds.i.e.71.07 Vishwas Park, Block-B, Uttam Nagar, New Sq.Mtrs. of property bearing No.B-40-A, out 13.02.2023 Delhi-110059, Also at: AG Block 27D, Vikas of Khasra No.328, with common rights to use Puri, Near Uttam Nagar bus Terminal, New entrance/gate, staircase, passage, lift Delhi-110018, Office address: Room submersible pump and all other common No.313, Rohini District Court, Rohini, New facilities alongwith 25% undivided share in Delhi-110086 2, SMT, PRIYA KAMRA W/O parking space on stilt, situated in the area of SHRI. KAPIL KAMRA, R/o B-40-A, First village Bindapur and the colony known as Floor, Vishwas Park, Block-B, Uttam Nagar, Vishwas Park, in Block-B, Uttam Nagar, New New Delhi-110059, Also at: AG Block 27D, Delhi-110059 with the proportionate freehold Vikas Puri, Near Uttam Nagar bus Terminal, rights of the land under the property. New Delhi-110018 3. 1. MR. RANAJIT KUMAR SAMAL S/o Built up freehold property bearing No.18/18-

JKP/1120/0009 07.12.2022 Rs.30,61,895/- (Rupee UPENDRA NATH SAMAL, and 2. MRS. A, at Second Floor without roof rights hirty Lacs Sixty On MADHUSMITA SAMAL W/o MR. RANAJIT situated at Moti Nagar, New Delhi-110015 Thousand Eight Hundred 13.02.2023 KUMAR SAMAL, R/o18/18-A, 2nd Floor, and Ninety Five only) as Moti Nagar, Ramesh Nagar, West Delhi, on 30.11.2022 togeth Delhi 110015 Also At-21/29 B, 2nd Floor, with further interest an Moti Nagar, Ramesh Nagar, West Delhi, incidental expenses and Delhi 110015, Also At- 24/7 C, Block 24, costs there on in Los Double Storey, Moti Nagar, Delhi 110015, Account No. HSG/N Also At-21/29 A, 2nd Floor, Moti Nagar, HEA/NSP/0317/0017 Ramesh Nagar, West Delhi 110015, and HSG/N/HEA Office Address of MR. RANAJIT KUMAR NSP/1217/0010 SAMAL -Havels India Ltd., QRG Towers, 2D, Sec-126, Expressway, Noida 201304.

Dated: 14/02/2023, Place: New Delhi AUTHORISED OFFICER, NEW HABITAT HOUSING FINANCE AND DEVELOPMENT LIMITED

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक् स का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) .....भरोसे का प्रतीक CIRCLE SASTRA- GHAZIABAD, KJ-13, Kavi Nagar, Ghaziabad, UP, email:-cs8228@pnb.co.in

Rule - 8(1), POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice(s) on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon the below mentioned borrowers/mortgagors/guarantors to repay the amount mentioned herein below within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The below mentioned borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/mortgagors/guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the properties described herein below, in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned below in the

The Borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower & guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealing with the said property will be subject to the charge of Punjab National Bank, for the amounts mentioned herein below beside future interest and other charges/expenses. In case borrower/guarantor do not pay back the dues within 30 days of the publication, the property shall be sold as prescribed, to recover the dues.

Sr. No.	Name of Borrower/ Mortgagor, Guarantor	Description of the property mortgaged	Date of Demand notice & Amount o/s [as mentioned in the Notice u/s 13(2)]	Date of Possession
	BO: Kaushambi, Ghaziabad M/s Radish Trading Pvt. Ltd. through its Director & Guarantor Shri Raj Kumar Jain, Smt. Indu Jain and Guarantor / Mortgagor Shri Prateek Jain S/o Late Shri Vijay Kumar Jain and Guarantors Shri Tarun Kumar S/o Shri. Ajit Kumar, Shri Virender Jain & Shri Vijyant Jain	Ghaziabad, UP. 201011. in the name of Shri Prateek Jain S/o Shri V. K. Jain property situated Bounded as: North - Plot No. C-11, South - Plot No.	Rs. 1,95,82,732/- as on 31.08.2018 with further interest, cost etc. thereon.	10-02-2023
Date	e: 10-02-2023. Place: Ghaziabad		Authorised Officer, Punial	b National Bank



RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED Registered Office: 14, Roj-Ka-Meo Industrial Area, Sohna, Haryana-122103 CIN: L74210HR1984PLC032293 www.rasandik.com Unaudited Financial Results for Nine Months and Quarter ended 31st December, 2022

SL.	Particulars	Three Months Ended			Nine Mon	Year Ended	
No.		31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.03.202 Audited
1	Total Income	2,695.98	4,782.93	5,373.87	12,814.22	14,969.66	20,734.12
2	Profit / (Loss) for the period before tax						
	and exceptional Items	(372.96)	360.34	(146.97)	29.69	(364.09)	(368.23)
3	Profit / (Loss) before tax	(372.96)	360.34	(146.97)	29.69	(364.09)	(368.23)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(279.09)	281.22	(110.53)	33.78	(273.61)	(270.79)
5	Total Comprehensive Income for the	`		`		' /	, ,
	period (net off tax) (OCI)	(279.09)	281.22	(110.53)	33.78	(273.61)	(255.56)
6	Paid up Equity Share Capital	` ′		\		(	,
	(Face Value of Rs.10/- each)	597.50	597.50	597.50	597.50	597.50	597.50
7	Other Equity						8,980.22
8	Basic and Diluted Earnings Per Share						·
	for the period (Rs.)	(4.67)	4.71	(1.85)	0.57	(4.58)	(4.53)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Investor Section of our website www.rasandik.com and under Corporate Section of BSE Limited at www.bseindia.com.

The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th February, 2023

> For and on behalf of the Board of Directors Rasandik Engineering Industries India Limited

> > Rajiv Kapoor

(DIN:00054659)

**Chairman & Managing Director** 

Place: New Delhi Date: 13th February, 2023

> CIN: L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Regd. Off: 13/331, Geeta Colony, Third Floor, Delhi-110031 Corp. Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and nine month ended on 31st Dec., 2022 **Amount in Lacs** Consolidated Standalone **Particulars** Quarter Year to Quarter Quarter Year to Quarter Ended on Ended on Ended on date on Ended on date on 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 Unudited Unudited Unudited Unudited Unudited Unudited Total Income from Operations (net) 92.60 416.37 150.84 92.60 416.79 150.84 62.36 125.20 62.24 218.04 125.06 218.00 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax 62.36 218.00 125.20 62.24 218.04 125.06 (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 46.67 163.13 93.69 46.58 163.17 93.58 Exceptional and/or Extraordinary items#) 172.96 183.74 Total Comprehensive Income for the period 58.98 169.46 180.52 61.63 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1,997.49 1,997.49 1,997.49 1,997.49 1,997.49 Paid-up equity share capital 1,997.49 [Face value Rs. 10 per share] Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -0.47 Basic: 0.23 0.82 0.47 0.23 0.82 0.47 Diluted: 0.23 0.82 0.47 0.23 0.82

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and nine month ended on 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 31st December, 2020 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules,

> For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited Atul Singh Tyagi

Managing Director

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after 15 days hereof but before the expiry of 30 days hereinafter to the Registrar of Companies, Kanpur that "M/S VOLTIRO ELECTRONICS" a Partnership Firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares

The principal object of the company are as follows: a. "To Deal in Wholesale or Retail of electrical machinery, equipment and supplies, n.e.c., Repai

electronic household good, retailers, importers, job workers and exporters of Electronics an Electrical, Electro-Pneumatic, Electro-Hydraulic, Electro-Mechanical and Electron Components, equipments, instruments, appliances and goods like Timers, Photocells Programmable Switches, Switch Mode Power Supply, AC-DC/DC-DC Converters, Digital Hour Meters, Photo Electric Light Controller, Terminal Connectors and Conduit Tubing" To deal in all kinds of machineries and equipments, textile machineries, equipments, testing

of consumer electronics. Retail sale of refrigerators, washing machines and other electrical

equipments, laboratory equipments, electrical equipments and machineries, automobil machineries, material handling equipments and devices, plants, machineries, tools, zigs fixtures, office equipments like typewriters, adding machines, calculators, computers televisions, radios, transistors, all kinds of electronic equipments, pneumatic equipments, fans heaters, coolers, air conditioners, refrigerators and other electrical appliances, communication equipments, telephones, intercom systems, consumable spares and components of all kinds of

A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at C-250, Sector 63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201307. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate the objection in writing to the Registrar of Companies, Kanpur and Registrar at CENTRA RÉGISTRATION CENTRE (CRC) INDIAN INSTITUTE OF CORPORATE AFFAIR (IICA) Plot No 6,7,8, Sector-5, IMT Manesar, District Gurgaon(Haryana) Pincode-122050 , within twenty on days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Date: 13.02.2023 Place: Noida

> Name(s) of Applicant Aabshar Ahmad 2. Mohd Amar

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD. CIN: L65929DL1991PLC043182 Regd. Office: D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048.

Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfinance@gmail.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2022. (₹ in Lacs

**PARTICULARS** 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 3.00 8.61 Total income from operation (net) (6.01)(5.96)0.03 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax 0.20 Net Profit/(Loss) for the period after tax 0.20 (6.01)(5.96)0.03 (after Extraordinary items) **Equity Share Capital** 550.04 550.04 550.04 550.04 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earning Per Share (before extraordinary items) (0.11)(0.11)0.00 (Face Value ₹10/- each) - Basic & Diluted Earning Per Share (after extraordinary items) 0.00 (0.11)(0.11)(Face Value ₹10/- each) - Basic & Diluted Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months Financial Results as on 31.12.2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of the Quarterly/Nine months Financial Results are available on the Stock Exchange i.e www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

By Order of the Board **Kanwarpal Singh Kochhar** Chairman & Managing Director DIN: 00529230

...Defendants

Registrar

FORM NO. V

**Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 600/1. University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007 (Area of jurisdiction part of Uttar Pradesh)

**SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION O.A. NO. 1107 / 2022** Dated: 13/02/2023 [Summons to Defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to Banks and Financial Institution Act 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery

Tribunal (Procedure Rules 1993)] INDIAN BANK (ERSTWHILE ALLAHABAD BANK) ... Applicant VS

**VERSUS** 

1. MR. KABIR S/O MR. PREM CHAND FLAT NO. 321, GROUND FLOOR GYAN KHAND-II, INDIRAPURAM, GHAZIABAD.

2. R.S.R HOUSING AND CONSTRUCTION PVT. (LTD) S-6, ASHIRWA COMPLEX, 162, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in

two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the tribunal on 14/08/2023 at 10:30 A.M. failing which the applicant shall be heard and decided in your absence.

**Debts Recovery Tribunal, Lucknow** 

#### MANAPPURAM FINANCE LTD. CIN-L65910KL1992PLC006623 IV/470A (old) W638A(New), Manappuram House,

Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567. **GOLD AUCTION NOTICE** 

The pledges, in specific and the public, in general, are hereby notified that public auction of the gold ornaments pledged in the below accounts is proposed to be conducted at the following branches on 28/02 / 2023 from 10.00 am onwards. We are auctioning gold ornaments defaulted customers who have failed to make payment of his/her loan amount despite being notified by registered letters. Unauctioned items shall be auctioned on any other days without further notice. Changes in venue or date (if any)will be displayed at auction centre and on website without any further notice.

List of pledges:-

Place: New Delhi

Date: 13.02.2023

**MR. KABIR AND OTHERS** 

DELHI, Dwaraka Sector 7, 113760700002978, Geetha Colony, 107590700008305, 8308, 107590700024709, Krishnan Nagar, 108530700016022, 8465, 8468, 108530730034670, Shalimar Bagh, 102780700005603, 102780730000004, Shastri Nagar, 108450700006602, Vishwas Nagar Delhi, 123330700007440, EAST DELHI, Bhajanpura Delhi, 122040700058655, 9929, 122040730015337, Durgapuri Chowk Delhi, 118870700009134, 118870730019457, Moujpur Delhi, 122690700004316, NEW DELHI, Chenna Market, 108660700012778, Hari Nagar, 108520700005350, Indra Park, 111200700008530, 8531, Karolbagh, 100850700017449. Mahayir Enclave, 109760700020214. Najafqarh, 108810700019420, 9421, Old Rajinder Nagar, 110450700005594, Paharganj, 108730700011762, Raghubir Nagar, 123410700043820, 3838, 3871, Tilak Nagar, 100860700015909, 100860700033810, Tughlakabad Extension Kalkaji, 111110700036836, 111110700047207, Utham Nagar, 107630700037437 107630730040696, 5022, NORTH DELHI, Bhorgarh Delhi, 124540700002252, 2253, Kingsway Gtb Nagar, 107870700007038, 107870700013495, 3496, Model Town, 109010700006551, SOUTH WEST DELHI, Mahipalpur, 107680700017265, WEST DELHI, Keshopur Depot Delhi, 120710700006428, Pitampura Delhi, 123260730006578, Vishnu Garden, 111320700018991

FARIDABAD, Ballabgarh, 122540700009617, 122540700010233, 9611 122540700026036, Faridabad, 100910700011457, Nit Vk Chowk Road, 118270730009543, 9581, 9590, 9690, 118270730010168, 0169, 0171, 0567 Sector 34 Huda Market Faridabad, 120280700035912, 120280730008797 GURGAON, Khandasa Road Gurgaon, 112070700009336, 112070730018043, Lakshman Vihar, 110740700025056, 5115, 5305, 5747, 9233 110740730019308, 9346, 110740730020020, 0987, 1267, 1458, 1473, 1474 1612, JHAJJAR, Nehru Park ,Bahadurgarh, 129670700022372, 2803, 129670730003630, 3631, 129670730018728, SIRSA, Sirsa, Haryana, 130150700025128, YAMUNA NAGAR, Kamani Chowk, Yamuna Nagar, 134390700016015, 8229, 9050, 9149, RANCHI, Hinoo Ranchi 135500730000975. Ratu Road.Ranchi. 128920700034722. WEST SINGHBHUM, Adityapur Jamshedpur, 135530700008203, AGRA, New Agra, 125940700010319, 0325, 0357, 0358, 0363, 0400, 0456, 0459, 0470, 0472, 0474, 0510, 0514, Shastripuram Agra, 123460700011604, 1712, 2663, 2731 2804, 2843, ETAH, Jaleshar Katra Chouki, 139470700000728, 0732, 0740, 0747, 0756, 0761, 0765, 0769, 0798, GAUTAM BODDA NAGAR, Hoshiarpur-Noida, 129560700038209, GAZIABAD, Rajnagar, U.P., 119860700003465, 3466, 3468, Shalimar, U.P., 120080700006797, GOUTAM BUDH NAGAR, Noida 100880700031393, 1464, JHANSI, Civil Line, Jhansi, 135800700011319, 1360, LUCKNOW, MATHURA, Dori Bazar, 113300700004399, 4413, 4422, Holy Gate, 116760700011095, 1357, 9980, MEERUT, Eves Crossing, 111480700018471 8602, 8639, 8726, 8758, 8786, 8806, 8905, 8921, 8925, 8935, 8941, 8942, 9014, 9015, 9046, 9047, 9131, 9152, 9154, 9190, 9203, 9204, 9249, 9278, 9282, 9284 9296, 9308, 9369, 9376, 9403, 9408, 9409, 9410, 9422, 9424, 9452, 9466, 9494, 9495, Hapur Stand Chowk- Meerut, 130770700016212, 6283, Hrs Chowk, 111630700016606. MORADABAD. Budhi Vihar-Moradabad. 127840700019878. 127840700020089. 0167. 0173. 0230. 0277. 0309. 0478.

Ranipur More Haridwar, 135910700000891, 0899, 0922, 0926, 0940, Persons wishing to participate in the above auction shall comply with the following:- Interested Bidders should submit Rs. 10,000/- as EMD (refundable to unsuccessful bidders) by way of Cash on the same day of auction. Bidders should

carry valid ID card/PAN card. For more details please contact 9072604049.

0942, 1263, 1327, 1426, 1450, 1511, 1544, 1582, 1616, 1617, 1620, 1621, 1691

1742, 1774, 1798, 1799, 1813, 1814, 1815, 1826, 1836, 1837, 1846, 1881, 1883,

DEHRADUN, Chakrata Road Dehradun, 122300700004901, HARIDWAR,

**Authorised Officer** For Manappuram Finance Ltd

New Delhi

DIN: 01335008

# भाई को देख शुरू किया क्रिकेट, नेशनल क्रश... दिलचस्प है स्मृति मंधाना की जर्नी



एजेंसी ▶ें। केपटाउन

सलामी बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रम और

नीलाक्षी डिसिल्वा के बीच अटूट शतकीय

साझेदारी से श्रीलंका ने आईसीसी महिला

टी20 विश्व कप में रविवार को ग्रुप ए के कम

स्कोर वाले मैच में बांग्लादेश को सात विकेट

से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टॉस

बांग्लादेश की टीम आठ विकेट पर 126 रन

ही बना सकी जिसके जवाब में श्रीलंका ने

हर्षिता (नाबाद 69) और नीलाक्षी (नाबाद

पर 129 रन बनाकर जीत दर्ज की। हर्षिता

और नीलाक्षी ने चौथे विकेट के लिए उस

समय 104 रन की अट्ट साझेदारी की जब

के बाद संकट में थी। तेज गेंदबाज मारुफा

अख्तर (23 रन पर तीन विकेट) ने श्रीलंका

के शीर्ष क्रम को धवस्त किया लेकिन हर्षिता

और नीलाक्षी ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी की

और टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप में

पहली बार लगातार दो जीत दिला दी।

31.12.2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतू

टीम पावरप्ले में 26 रन पर तीन विकेट गंवाने

41) की पारियों से 18.2 ओवर में तीन विकेट

जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए

एजेंसी ▶े नई दिल्ली

महिला प्रीमियर लीग के लिए सोमवार को ऑक्शन का आयोजन किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाली नीलामी में 409 खिलाडियों की बोली लगी। नीलामी में टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मित मंधाना छाई रहीं। स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत में खरीदा है। वह ड्रब्लूपीएल ऑक्शन की सबसे

महंगी क्रिकेटर रही हैं। साल 1996 में मुंबई में पैदा हुईं स्मृति मंधाना को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा अपने बडे भाई श्रवण से मिली। श्रवण भी महाराष्ट्र के लिए एज ग्रुप क्रिकेट खेल चुके हैं। श्रवण को देखकर स्मृति ने भी क्रिकेटर बनने की ठान ली। स्मृति की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने सपने को पुरा किया।

हर्षिता-नीलाक्षी ने चौथे विकेट के लिए की १०४ रन की साझेदारी

श्रीलंका ने बांग्लादेश

को ७ विकेट से हराया

रणसिंघे ने किए तीन शिकार

बांग्लादेश का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही साबित नहीं हुआ। ओशादी रणसिंघे ने

श्रीलंका की ओर से 23 रन ढेकर तीन विकेट चटकाते हुए बांग्लादेश को चुनैतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने

से रोका। चामरी अटापद्र ने 19 रन देकर दो विकेट चँटकाए जबकि इनोंका रणवीरा ने किफायती

गेंदबाजी करते हुए चार औवर में 18 रन देकर एक विकेट हासिल किया। बांग्लादेश की ओर से शोभना

मोस्त्री (२९), कप्तान निगार सुल्ताना (२८) और सलामी बल्लेबाज शमीमा सुल्ताना (२०) ही २० रन के

आंकड़े को छू पाईं। बांग्लादेश की टीम अंतिम 10 ओवर में 54 रन ही बना सकी।

#### बोहरा शतक ठोक बटोरी सुर्खियां

अक्टूबर 2013 में स्मृति सुर्खियों में आई, जब वह किसी वनडें मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। तब महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने वेस्ट जोन अंडर -19 टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ १५० गेंदों पर नाबाद २२४ रन बनाए थे।

#### 16 की उम्र में किया टी20 और वनडे डेब्यू

स्मृति मंधाना ने अप्रैल 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मुकाबले से अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। उस समय स्मृति की उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसी महीने स्मृति ने बांग्लादेश के ही खिलाफ अपना वनडे डेब्यू भी किया। इसके बाद साल 2014 में स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलकर अपने टेस्ट कॅरियर की शुरुआत की।



#### स्मृति मंधाना का अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर

स्मृति मंधाना भारत के लिए अभी तक 77 वनडे, 112 टी20 इंटरनेशनल और 4 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 43.28 की औसत से 3073 रन हैं जिसमें पांच शतक और 25 अर्धशतक शामिल रहे। टी20 इंटरनेशनल में स्मृति ने 27.32 के एवरेज से 2651 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 20 अर्धशतक निकले। वहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो स्मृति के नाम पर 46.42 की औसत से 325 रन दर्ज हैं। टेस्ट मैचों में स्मृति ने एक शतक और दो अर्धशतक

### नीलाम हए खिलाड़ियों की सूची

#### दिल्ली कैपिटल्स

**▶**) जेमिमा रोड़िव्स 2.20 करोड रु **)** शेफाली वर्मा 2.00

करोड़ रु

**)** मारिजाने काप 1.50

करोड़ रु **▶**) मेग लैनिंग 1.10 करोड़ रु **▶**। एलिस कैप्से 75 लाख रु

**₩** शिखा पांडे 60 लाख रु **)** जेस जोनासेन 50 लाख र **▶**। लॉरा हैरिस ४५ लाख रु **)** राधा यादव ४० लाख रू **▶**। अरुंधति रेड्डी ३० लाख रु

**▶**) मीनू मणि ३० लाख रु **)** पूनमें यादव ३० लाख रू **₩** स्नेहा दीप्ति ३० लाख रु **▶**) तानिया भाटिया ३० लाख रू **₩** टिटास साधु 25 लाख रु **)** जिस्या अख्नर २० लाख रू

**₩** अपर्णा मंडल 10 लाख रु

**)** तारा नॉरिस 10 लाख रु

### गुजरात जायट्स

करोड रु **▶**) बेथ मूनी 2 करोड़ रु **▶**) जॉर्जिया वारेहम ७५

**₩** स्नेह राणा ७५ लाख रु **▶**) अनाबेल सदरलैंड 70

**₩** डायंड्रा डॉटिन ६० लाख रु **)** सोफिया डंकले 60 लाख रु **▶**। सषमा वर्मा ६० लाख रु **)** तन्नजा कंवर 50 लाख रु **)** हरलीन देओल ४० लाख रु

35 लाख रू **▶**। दयालन हेमलता ३०

**)** अश्विनी कुमारी

**)** मानसी जोशी ३० लाख रू **)** मोनिका पटेल ३० लाख रु **▶** अबिनेनी मेघना ३० लाख रु **▶**) हर्ले गाला 10 लाख रु

१० लाख रू

#### **▶** शबनम शकील 10 लाख रु मुंबई इंडियंस

**)** पूजा वस्त्राकर 1.90

**▶**) हरमनप्रीत कौर 1.80

करोड रु **)** यास्तिका भाटिया 1.50 **▶**। अमेलिया केर 1 करोड़ रु **)** अमनजोत कौर 50

লাख रू **₩** हेले मैथ्यूज ४० लाख रु

**₩** क्लो ट्रायोंन ३० लाख रु **▶**) हीथर ग्राहम 30 लाख रु

**)** इसाबेल वोंग 30 लाख रू **▶** प्रियंका बाला २० लाख र **)** धारा गर्जर १० लाख रु

**₩** हुमैरा काजी 10 लाख रु **₩** जिंतिमनी कलिता 10

**₩** नीलम बिष्ट 10 लाख रु **₩** सायका इशाक 10 लाख रु **)** सोनम यादव 10 लाख रू

रॉयल चैलेंजर्स **▶** स्मृति मंधाना ३.४०

**₩** ऋचा घोष 1.90 करोड़ रु **₩** एलिस पैरी 1.70 करोड रु **▶** । रेणुका सिंह 1.50 करोड़ रु **▶** सोंफी डेविने 50 लाख रु

**▶**। हीथर नाइट ४० लाख रु **▶**) मेगन शूट ४० लाख रू **▶**) कनिका आहुजा ३५ लाख रू

**)** डेन वैन निकर्क 30

**▶**₩ एरिन बर्ज्य 30 लाख र **▶** । प्रीति बोस ३० लाख रु

**)** कोमल जंजाद 25 लाख रु

**▶**। आशा शोभना रा १० लाख **₩** दिशा कासत 10 लाख रु **▶**) इंद्राणी राय 10 लाख रु

**)** पनम खेमनार 10 लाख रू **)** सहाना पवार 10 लाख रु **₩** श्रेयंका पाटिल 10 लाख रु युपी वारियर्स

**▶**। सोफी एक्लेस्टोन 1 80 **▶**)। देविका वैद्य 1.40 करोड़ रु **▶** । तहलिया मैकग्रा 1.40

**₩** दीप्ति शर्मा २.६० करोड़ रु

करोड़ रु **▶**) शबनीम इस्माइल 1 करोड़ रु

**₩** ग्रेस हैरिस 75 लाख रु **₩** एलिसा हीली 70 लाख रु **▶**। अंजिल सरवर्गी ५५

**₩** राजेश्वरी गायकवाड ४० **▶**⊌ लाख रु

**)** श्वेता सहरावत ४० लाख रु **)** किरण नविगरे 30 लाख रु **▶**। लॉरेन बेल 30 लाख रू **▶** लक्ष्मी यादव 10 लाख रु

**▶** । पार्शवी चोपडा 10 लाख रु **▶**। एस. यशश्री 10 लाख रु **▶** सिमरन शेख 10 लाख रू

# जनवरी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने शूभमन

दुबई। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को एकदिवसीय प्रारूप में लगातार अच्छी पारियां खेलने के लिए जनवरी माह का 🛙 आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया जबिक इंग्लैंड की अंडर-19 कप्तान ग्रेस स्क्रीवन्स महिला वर्ग में यह सम्मान पाने वाली सबसे यवा खिलाडी बनी। गिल ने जनवरी में सीमित ओवरों के क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों के खिलाफ एकदिवसीय प्रारूप में काफी रन जुटाए। तेइस साल के गिल ने जनवरी में 100 से अधिक के तीन स्कोर बनाए और इस दौरान 567 रन जोडे। उन्होंने न्युजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में श्रृंखला के पहले मैच में दोहरा शतक जडा। उन्होंने सिर्फ 149 गेंद में 28 बाउंड्री की मदद से 208 रन बनाए

चेन्नइयन ने ईस्ट

बंगाल को 2-0 से हराया

चेन्नई। चेन्नइयन एफसी ने इंडियन

सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल

प्रतियोगिता के मैच में रविवार को यहां

अपने घरेल मैढान जवाहरलाल नेहरू

स्टेडियम में ईस्ट बंगाल एफर्सी को 2-0 से

हराया। चेन्नइयन ने ईस्ट बंगाल के

सेंटर-बैक लालचुंगनुंगा के 48वें मिनट में

और इस दौरान एकदिवसीय प्रारूप में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 116 और न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय में 112 रन की पारी भी खेली। गिल ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हमवतन मोहम्मद सिराज को वैश्विक मतदान में पछाडकर



पहली बार आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाडी का पुरस्कार जीता।

# सिंधू-प्रणय देंगे चुनौती, कजाखस्तान के खिलाफ भारत प्रबल दावेदार

फिट हो चुकी पीवी सिंधू और एचएस प्रणय की अगुवाई में भारत मंगलवार को यहां शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2023 के ग्रुप बी के अपने पहले मैच में कजाखस्तान के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी सिंधू स्ट्रेस फ्रेक्चर से प्री तरह से उबर चुकी हैं जिसके कारण वह पिछले साल पांच महीने नहीं खेल पाईं थी और नए सत्र में सफलता हासिल करने के लिए बेताब हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चोट के कारण सिंधू को विश्व चैंपियनशिप



सत्र के बाकी हिस्से से भी बाहर हो गईं थी। नए सत्र में मलेशिया ओपन और फिर स्वदेश में इंडिया ओपन में पहले दौर में शिकस्त के बाद सिंध की नजरें जीत पर टिकी हैं और वह यहां अपना सब कुछ झोंकी देंगी। महिला एकल में सिंधू की बैकअप दनिया की 32वें नंबर की खिलाड़ी आकर्षी कश्यप हैं जिन्होंने पिछले महीने बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय चैलेंज का खिताब जीता। (पुरुष एकल में दुनिया के आठवें नंबर के खिलाड़ी

लक्ष्य सेन पर भारत की उम्मीदों का दारोमदार होगा। पुरुष युगल में चोटिल सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की गैरमौजुदगी में चिराग शेट्टी और ध्रुव कपिला जोड़ी बनाकर खेलेंगे। पुरुष युगल में एक अन्य जोड़ी कृष्ण प्रसाद गारगा और विष्णुवधन गौड़ पो को है।

### त्रीशा-गायत्री को कमान

महिला युगल में भारतीय चुनौती की अगुवाई राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रीशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी करेगी। बैकअप के रूप में टीम में अश्विनी भट और शिखा गौतम शामिल हैं। मिश्रित युगल के लिए सिर्फ इशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को टीम में शामिल किया गया है।

## किये गए आत्मघाती गोल से बढ़त बनाई। इयोन मोर्गन ने फ्रेंचाइजी

विजेता कप्तान हयोन मोर्गन ने सोमवार प्रारूप के दुर्नामेंट में खेलना जारी रखा था।

को तुरंत प्रभाव से सभी तरह के छोटे प्रारूप के फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। एक साल से भी कम समय पहले मोर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। 36 साल के मोर्गन ने जुलाई 2022 में 16 साल के कॅरियर से संन्यास लिया था लेकिन दुनियाभर में छोटे

भवन सेक्टर-21, पंचकूला लागू करना।

भवन सेक्टर-21, पंचकूला लागू करना।

विभाग हरियाणा, कृषि

हरियाणा-124001 एक

कते व बोर्ड की ओर से

फ्रिक इंडिया लिमिटेड

जसमोहन सिंह

प्रबंध निदेशव

कृषि एवं किसान कल्याण | सैटेलाइट ड्रोन तकनीकों का उपयोग करते हुये ''क्रॉप यिल्ड एस्टीमेशन'' और ''लोकल क्रॉप

वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक स्थल पर डेस्क टॉप कम्प्यूटर, सिस्टम और प्रिंटर की आपूर्ति व स्थापना।

लोस असैसमेंट'' हेतु अमरजिंग तकनीकों जैसे ए1 और एमएल के उपयोग पर पायलट प्रोजैक्ट

#### समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त वर्ष 31/12/2022 30/09/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/03/2022 विवरण (अअंकेशित) (अअंकेशित) ( अंकेक्षित ) ( अअंकेक्षित ) ( अअंकेक्षित ) 10.009.17 6.742.86 6.611.81 18.309.55 28.046.69 पचालनों से आर 23,456,70 165.86 152.73 130.70 459.14 591.71 725.11 अन्य आय 18,901.26 28,771.80 कुल आय (1+11) उपभोग की गई सामग्रियों की कीमत 6,790.76 5,331.97 4,477.61 17,250.22 14,350.42 20,444.34 तैयार सामान, चाल कार्य और स्टॉक इन टेड की इनवेंटीज में परिवर्तन (1,227.00) (1,778.43) (1,355.05) 358.53 (914.44) (256.30)1,285.99 1,191.90 1,160.68 3,593.48 3,139.05 4,338.83 38.74 वित्तीय लागत 108.07 108.08 अवमल्यन एवं अमोर्टाइजेशन व्यय 56.23 55.11 58.88 158.75 159.61 217.11 579.48 579.64 2.010.43 1.778.23 2.740.55 अन्य व्यय 712.22 कुल व्यय (IV 21,893.95 17,756.96 26,582.09 9,242.47 6,284.77 6,046.79 कर से पूर्व लाभ ( III-IV ) 2,021.89 1,144.30 2,189.71 कर व्यय ए) वर्तमान कर 234.70 153.72 175.09 508.85 287.99 578.00 ही ) विलिप्रहात कर (36.98)16.86 (10.16)(40.42)(19.21)(24.63)सी) पूर्ववर्ती वर्षों हेतु आयकर 553.37 कल कर (VI) 734.84 440.24 530.79 1,553.46 अवधि हेतु कर के बाद लाभ ( V-VI ) 875.52 1,636.34 अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध) ए. (i) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नर्ह (3.73)(3.72)(5.31)(11.17)(15.92)(14.89)की जाएंगी (ii) मदों के सम्बन्ध में आयकर जो लाभ अथवा 0.94 0.93 1.34 2.81 4.01 3.75 हानि में पनः वर्गीकत नहीं किया जाएगा : मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत की (ii) मदों के सम्बन्ध में आयकर जो लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा : (2.79)(3.97)(2.79)(8.36)(11.91) (11.14)कुल अन्य व्यापक आय ( **VIII** ) अवधि हेत् कुल व्यापक 732.05 526.82 1.545.10 1.625.20 आय ( VII+VIII ) 437.45 863.61 20,303.98 भगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 (रु. 10/- प्रत्येक का प्रत्यक्ष मल्य) अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. / शेयर) 88.47 258.93 145.91 272.73 ए) बेसिक ईपीएस - वार्षिकृत नहीं 122.48 73.38 122.48 बी) डायल्यूटिड ईपीएस – वार्षिकृत नहीं

CIN: L74899HR1962PLC002618

पंजीकृत कार्यालय : 21.5 किमी., मेन मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और इनकी 13.02.2023 को आयोजित सम्बन्धित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड प

लिए गए हैं और इसकी एक सीमित समीक्षा कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा पर्ण कर ली गई है। कम्पनी प्राथमिक तौर पर इंडस्ट्रीयल रेफ्रीजरेशन और एयरकंडीशनिंग सिस्टम्स के निर्माण, आपूर्ति और निष्पादन के बिजनेस में लगी हुई है। चूंकि इन गतिविधियों की मूल प्रकृति जोखिम व वापसी के उसी प्रकार के सैट द्वारा अधिशासित है, अतः IND AS 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट्स'' के अनुसार केवल

एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है। कार्वी स्टॉक ब्रॉकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) कम्पनी द्वारा जमा करवाये गये रु. 24.76 लाख के बैंके बैलेंस सहित डिमैट अकाउंट मल्य रु. 186.82 लाख

(31.03.2022 के अनुसार मार्केट वैल्यू) में कम्पनी की ओर से इक्विटी शेयर धारक थी, जोकि कम्पनी के संज्ञान और अनुमोदन के बिना केएसबीएल द्वारा गिरवीकृत किया गया था। भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सरकुलर दिनांक 20 जून 2019 के अनुरूप, ब्रॉक्स उनके स्वयं के / इसके स्वय के उपयोग हेतु ऋण / फंइस उठाने के लिये क्लाइंट की प्रतिभृतियों को गिरवी नहीं कर सकते और ब्रॉक्स को प्रतिभृतियों के साथ-साथ इसके स्वयं के फंड सहित क्लाइंट के फंड्स को अलग-अलग करने की आवश्यकता है।''तदनुसार, कम्पनी केएसबीएल से कम्पनी के नाम से धारित प्रतिभृतियों और जमा राशि की वापसी के लिये एनएसई (नॉडल एजेंसी के नाते) को वर्ष 2021-2022 में ई-मेल्स और पत्र लिख चुकी है, इसके अतिरिक्त, तिमाही के दौरान कम्पनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से केएसबीएल को कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है। बैंक बैलेंस अथवा राशि रु. 181.10 लाख (रु. 30.49 लाख की प्राप्त की गई राशि का शुद्ध) सहित दावाकृत समान संख्या के शेयरों / मूल शेयरों की लम्बित प्राप्ति, तदनुसार कम्पनी निवेश से राशि को समायोजित कर चुकी है और यह अन्य वित्तीर परिसम्पत्तियों (वर्तमान) के तहत दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त कम्पनी का मत है कि ऊपर वर्णित राशि उपयुक्त और पूर्णतया वसूली योग्य है।

पूर्ववर्ती अवधियों / वर्ष हेतु आंकड़े आवश्यकतानुसार रिग्रुप्ड / रिअरेंज्ड कर लिये गये हैं।

## क्रिकेट से भी लिया संन्यास लंदन। इंग्लैंड के 50 ओवर विश्व कप 🗍

मोर्गन ने एक बयान में कहा, 'मैं बड़े गर्व के साथ क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर रहा हूं। काफी सोच विचार के बाद मुझे लगा कि यह खेल से अलविदा कहने का सही समय है, क्रिकेट ने इतने वर्षों में मुझे काफी कुछ दिया है।'

DE	ज़े का सही समय है, क्रिके	न्ट ने इतने वर्षों में मुझे काफी कुछ दिया है।" से हटना पड़ा था और वह पिह	छले दुनिया के	जाठवें नंबर	के खिलाड़ी गया है।	
	Š	रेयाणा सरकार	ि	नविद	इा सूचन	भ भ
क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि	राशि/ईएमडी (लगभग) रु. में	विभाग की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	निदेशक सूचना, जन सम्पर्क और भाषाएं, हरियाणा	''डिजिटल वॉल पेंटिंग / वॉल ग्राफ्टिंग / वॉल आर्ट / वॉल राइटिंग हेतु फर्मों / एजैंसियों के सूचीकरण'' हेतु ई-निविदा।	14.02.2023 05.03.2023	ईएमडी 1 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0172-5059128 diprexhibition@gmail.com
2	लोनिवि भ व प सिरसा	जिला सिरसा में सिरसा लुढेसर रोड से शेरपुरा तक कि.मी. 0.00 से 12.49 तक (रोड कट पोर्शन कि.मी. 10.43 से 10.452) हेतु (निकट गांव चड्डीवाल) में पाइप बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त रोड का पुनरोद्धार + 1 कार्य।	03.02.2023 23.02.2023	15.42 লাख	https://etenders.hry.nic.in	01666-222959 pwd-eepd2-sirsa@hry.nic.in
3	पंचायती राज, रोहतक	ब्लॉक कलानौर में एसडब्ल्यूएम + 10 कार्य।	09.02.2023 23.02.2023	439.98 लाख	https://etenders.hry.nic.in	8708577177 prexeeng.roh@hry.nic.in
1	पंचायती राज, जीन्द	गांव लजवाना कलां, ब्लॉक जुलाना, जिला जीन्द में गंदे पानी का पुनरोद्धार / कायाकल्प (स्कूल वाली जोहड़ी,) UID-01HRJNDJLN0030LAJW009 + 1 कार्य।	14.02.2023 28.02.2023	77.61 लाख	https://etenders.hry.nic.in	01681-245124 xenprjind@gmail.com
5	पंचायती राज, पंचकूला	गांव बांसवाला ब्लॉक मोरनी, जिला पंचकूला में नाले से अमेर सिंह के मकान तक गली का निर्माण + 10 कार्य।	10.02.2023 17.02.2023	39.07 লাख	https://etenders.hry.nic.in	9467807024 PREXEENG.PKL@HRY.NIC.IN
3	पंचायती राज, फतेहाबाद	गांव जल्लोपुर, ब्लॉक नागपुर फतेहाबाद में राजकीय विद्यालय के सामने (पोंड आईडी 01HRFTBNGP0166JALL002) का पुनरोद्धार + 6 कार्य।	08.02.2023 28.02.2023	347.21 লাख	https://etenders.hry.nic.in	1667230855 prexeeng.ftb@hry.nic.in
7	पंचायती राज, फतेहाबाद	शिव मंदिर से प्रकाश के मकान तक (हैदरवाला) आईपीबी गली का निर्माण + 8 कार्य।	09.02.2023 17.02.2023	72.39 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1667230855 prexeeng.ftb@hry.nic.in
3	पंचायती राज, नागपुर	गांव जल्लोपुर, ब्लॉक नागपुर फतेहाबाद में राजकीय विद्यालय में आईएलपीबी कार्य का निर्माण।	11.02.2023 21.02.2023	5.48 লান্ত্র	https://etenders.hry.nic.in	1667230855 prexeeng.ftb@hry.nic.in
9	पंचायती राज, रतिया	गांव लाली ब्लॉक रतिया, जिला फतेहाबाद में मेन पीडब्ल्यूडी रोड से पशु चिकित्सा हस्पताल (छबीलदास अरोड़ा के मकान तक) आईएलपीबी कार्य का निर्माण।	09.02.2023 17.02.2023	12.38 लाख	https://etenders.hry.nic.in	1667230855 prexeeng.ftb@hry.nic.in
10	पंचायती राज, नारायणगढ़, अम्बाला	गांव बड़ागांव में एससी चौपाल में आरसीसी शैंड का निर्माण, गांव फतेहपुर 126 में अम्बेडकर भवन में आरसीसी शैंड का निर्माण, गांव तपड़िया रूलदु की ब्लॉक नारायणगढ़ में अमर सिंह से गुरदयाल के मकान तक नाले का निर्माण।	11.02.2023 17.02.2023	29.51 लाख	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368 prexeeng.amb@hry.nic.in
11	पंचायती राज, कैथल	सामान्य चौपाल में (त्योंथा) में इंडोर जिम की स्थापना + 19 कार्य।	10.02.2023 24.02.2023	142.51 লাख	https://etenders.hry.nic.in	1746234748 prexeeng.ktl@hry.nic.in
12	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा, कृषि	सैटेलाइट ड्रोन तकनीकों का उपयोग करते हुये 'परसीजन फार्मिंग – टारगेटेड फार्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे' हेतु अमरजिंग तकनीकों जैसे ए1 और एमएल के उपयोग पर पायलट प्रोजैक्ट	13.02.2023 08.03.2023	10000/-	www.agriharyana.gov.in	9417040812 jdstat.agrihry@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

13.02.2023

08.03.2023

14.02.2023

10000/-

पीआरडीएच-11/2023/280/15680/I/88/7 दि. 13.02.23

www.agriharyana.gov.in

http://www.vtirohtak.edu.in

9417040812

jdstat.agrihry@gmail.com

01262-248572

vtirohtakhry@gmail.com